

सारणी सं. 5.7 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण
मार्च 2009

दक्षिणी क्षेत्र
पुदुचेरी

(राशि लाख रुपयों में)

व्यवसाय	ग्रामीण			अर्ध शहरी		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
	1	2	3	4	5	6
I. कृषि	32,094	136,20	114,55	15,950	92,90	80,61
1. प्रत्यक्ष वित्त	31,271	132,25	111,47	15,840	86,15	74,85
2. परोक्ष वित्त	823	3,95	3,08	110	6,75	5,76
II. उद्योग	545	148,48	112,28	612	105,71	80,22
1. खनन तथा उत्खनन	8	2,91	1,88	1	6	5
2. खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण	61	25,29	18,51	70	30,23	23,85
(क) चावल, आटा व दाल मिलें	34	21,83	15,97	19	18,69	16,53
(ख) चीनी	—	—	—	—	—	—
(ग) खाद्य तेल और वनस्पती	—	—	—	—	—	—
(घ) चाय अभिसंस्करण	—	—	—	—	—	—
(ङ) फलों और वनस्पतियों का अभिसंस्करण	1	1,10	60	2	17	6
(च) अन्य	26	2,36	1,95	49	11,37	7,26
3. पेय पदार्थ और तम्बाकू	10	13,13	9,73	9	15,00	14,73
4. वस्त्र	28	8,48	7,95	24	10,03	9,84
(क) सूती वस्त्र	2	89	88	4	9,03	9,04
(ख) पैटसन और अन्य प्राकृतिक फायबर के वस्त्र	3	86	84	—	—	—
(ग) हथकरघा वस्त्र और खादी	5	2	2	3	1	1
(घ) अन्य वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	18	6,71	6,21	17	99	79
5. कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	23	5,67	4,55	34	3,89	3,28
6. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	4	3,25	2,37	20	2,24	1,73
7. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	5	39	60	2	1	1
8. रत्न और आभूषण	—	—	—	8	32	31
9. रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	23	25,92	22,55	73	6,28	3,94
10. रसायन और रासायनिक उत्पाद	27	8,30	6,98	59	3,83	3,70
(क) भारी औद्योगिक रसायन	3	29	23	—	—	—
(ख) उर्वरक	1	—	—	—	—	—
(ग) औषध और औषधीय उत्पाद	2	18	9	2	17	17
(घ) खाद्यतर तेल	—	—	—	—	—	—
(ङ) अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	21	7,83	6,66	57	3,66	3,53
11. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन	—	—	—	—	—	—
12. सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का निर्माण	1	2	2	15	1,45	1,37
13. मूल धातुएं और धातु उत्पाद	21	7,62	6,11	10	1,46	99
(क) लोहा व इस्पात	1	7	2	2	1,03	64
(ख) अलोह धातु	7	6,26	5,16	2	16	13
(ग) धातु उत्पाद	13	1,29	93	6	27	22
14. अभियांत्रिकी	36	4,46	3,53	41	6,32	4,38
(क) भारी अभियांत्रिकी	3	40	26	4	92	84
(ख) हल्की अभियांत्रिकी	25	3,59	2,87	19	3,61	2,20
(ग) विद्युत मशीनरी और सामान	4	18	12	14	1,56	1,11
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सामान	4	29	29	4	23	22
15. वाहन, वाहन पुर्ज और परिवहन उपस्कर	31	4,50	2,65	4	76	19
16. अन्य उद्योग	224	13,46	9,09	160	4,39	3,91
17. विद्युत, गैस और जल	4	11,30	6,94	3	1,25	1,25
(क) विद्युत उत्पादन और प्रेषण	3	8,80	5,27	—	—	—
(ख) गैर-परंपरागत ऊर्जा	1	2,50	1,67	2	1,21	1,21
(ग) गैस, बाष्प और जल आपूर्ति	—	—	—	1	4	4
18. निर्माण	39	13,78	8,81	79	18,19	6,71
(क) आधारभूत निर्माण के अलावा	33	13,46	8,53	56	6,79	4,37
(ख) आधारभूत निर्माण	6	32	28	23	11,40	2,34
III. परिवहन परिचालक	94	7,30	5,03	209	14,54	7,96
IV. व्यावसायिक और अन्य सेवाएं	2,155	31,35	24,04	1,261	123,17	109,32
1. व्यावसायिक सेवाएं	962	3,83	3,26	241	6,78	6,31
2. पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	37	8,74	6,58	73	10,72	8,80
3. मनोरंजन सेवाएं	35	91	81	37	1,72	1,36
4. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार	4	65	27	5	27	26
5. अन्य	1,117	17,21	13,11	905	103,69	92,59
V. वैयक्तिक ऋण	13,138	134,05	107,69	17,073	274,64	218,30
1. आवास	990	51,40	43,42	2,363	117,42	94,01
2. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	125	68	48	284	3,15	2,03
3. वाहन	272	4,98	3,82	1,001	26,59	19,73
4. शिक्षा	1,801	25,01	16,90	1,689	26,10	17,82
5. व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	58	24	18	555	1,95	1,50
6. अन्य	9,892	51,74	42,89	11,181	99,43	83,21
VI. व्यापार	1,994	65,68	47,49	2,775	91,15	79,15
1. थोक व्यापार	51	32,44	21,13	71	24,43	21,02
2. खुदरा व्यापार	1,943	33,24	26,35	2,704	66,72	58,13
VII. वित्त	445	2,93	2,84	64	41	27
VIII. अन्य सभी	3,206	13,95	11,49	2,980	28,54	24,30
कुल बैंक ऋण	53,671	539,93	425,40	40,924	731,06	600,12

सारणी सं. 5.7 – अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण का व्यवसाय के अनुसार राज्य तथा जनसंख्या समूहवार वर्गीकरण
मार्च 2009

दक्षिणी क्षेत्र
पुदुचेरी

(राशि लाख रुपयों में)

व्यवसाय	शहरी			महानगरीय		
	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि	खातों की संख्या	ऋण सीमा	बकाया राशि
	7	8	9	10	11	12
I. कृषि	24,033	231,12	168,12	—	—	—
1. प्रत्यक्ष वित्त	23,721	216,89	158,36	—	—	—
2. परोक्ष वित्त	312	14,24	9,76	—	—	—
II. उद्योग	2,711	526,23	355,28	—	—	—
1. खनन तथा उत्खनन	5	4,28	4,08	—	—	—
2. खाद्य निर्माण और अभिसंस्करण	214	58,98	50,74	—	—	—
(क) चावल, आटा व दाल मिलें	88	29,20	23,98	—	—	—
(ख) चीनी	1	1,00	5	—	—	—
(ग) खाद्य तेल और वनस्पती	17	12,06	10,71	—	—	—
(घ) चाय अभिसंस्करण	2	1	—	—	—	—
(ङ) फलों और वनस्पतियों का अभिसंस्करण	3	67	65	—	—	—
(च) अन्य	103	16,05	15,35	—	—	—
3. पेय पदार्थ और तम्बाकू	3	4,19	1,92	—	—	—
4. वस्त्र	228	30,36	23,53	—	—	—
(क) सूती वस्त्र	40	24,79	18,98	—	—	—
(ख) पैटसन और अन्य प्राकृतिक फायबर के वस्त्र	81	72	66	—	—	—
(ग) हथकरघा वस्त्र और खादी	5	2,33	1,84	—	—	—
(घ) अन्य वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	102	2,51	2,05	—	—	—
5. कागज, कागज उत्पाद और मुद्रण	164	34,19	25,76	—	—	—
6. लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	28	49	23	—	—	—
7. चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	28	38,86	24,00	—	—	—
8. रत्न और आभूषण	4	53	51	—	—	—
9. रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद	142	20,25	11,80	—	—	—
10. रसायन और रासायनिक उत्पाद	155	63,42	34,41	—	—	—
(क) भारी औद्योगिक रसायन	12	7,90	7,24	—	—	—
(ख) उर्वरक	3	55	37	—	—	—
(ग) औषध और औषधीय उत्पाद	9	23,61	4,17	—	—	—
(घ) खाद्यतर तेल	1	9	9	—	—	—
(ङ) अन्य रसायन और रासायनिक उत्पाद	130	31,27	22,55	—	—	—
11. पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु इंधन	1	15	16	—	—	—
12. सीमेंट और सीमेंट उत्पादों का निर्माण	79	1,37	1,18	—	—	—
13. मूल धातुएं और धातु उत्पाद	78	33,26	20,19	—	—	—
(क) लोहा व इस्पात	12	7,03	6,73	—	—	—
(ख) अलोह धातु	6	45	42	—	—	—
(ग) धातु उत्पाद	60	25,78	13,04	—	—	—
14. अभियांत्रिकी	260	110,44	55,23	—	—	—
(क) भारी अभियांत्रिकी	31	19,67	8,07	—	—	—
(ख) हल्की अभियांत्रिकी	120	16,60	6,74	—	—	—
(ग) विद्युत मशीनरी और सामान	90	11,93	6,78	—	—	—
(घ) इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और सामान	19	62,26	33,63	—	—	—
15. वाहन, वाहन पुर्ज और परिवहन उपस्कर	35	5,86	4,44	—	—	—
16. अन्य उद्योग	579	41,02	36,02	—	—	—
17. विद्युत, गैस और जल	5	97	59	—	—	—
(क) विद्युत उत्पादन और प्रेषण	—	—	—	—	—	—
(ख) गैर-परंपरागत ऊर्जा	—	—	—	—	—	—
(ग) गैस, बाष्प और जल आपूर्ति	5	97	59	—	—	—
18. निर्माण	703	77,61	60,48	—	—	—
(क) आधारभूत निर्माण के अलावा	564	55,31	48,37	—	—	—
(ख) आधारभूत निर्माण	139	22,30	12,11	—	—	—
III. परिवहन परिचालक	1,329	73,13	45,27	—	—	—
IV. व्यावसायिक और अन्य सेवाएं	2,921	400,42	316,60	—	—	—
1. व्यावसायिक सेवाएं	659	37,21	31,10	—	—	—
2. पर्यटन, होटल और रेस्टोरेंट	211	62,95	49,29	—	—	—
3. मनोरंजन सेवाएं	29	1,12	98	—	—	—
4. सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार	14	88	79	—	—	—
5. अन्य	2,008	298,26	234,44	—	—	—
V. वैयक्तिक ऋण	68,629	1124,79	857,90	—	—	—
1. आवास	6,900	495,49	407,35	—	—	—
2. टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	1,358	16,35	13,32	—	—	—
3. वाहन	27,080	205,90	127,89	—	—	—
4. शिक्षा	4,464	87,75	64,05	—	—	—
5. व्यक्तिगत क्रेडिट कार्ड	705	10,80	5,26	—	—	—
6. अन्य	28,122	308,49	240,03	—	—	—
VI. व्यापार	5,709	231,33	190,13	—	—	—
1. थोक व्यापार	430	63,45	51,37	—	—	—
2. खुदरा व्यापार	5,279	167,89	138,76	—	—	—
VII. वित्त	336	18,05	11,68	—	—	—
VIII. अन्य सभी	8,155	97,45	78,32	—	—	—
कुल बैंक ऋण	1,13,823	2702,52	2023,29	—	—	—